



ROADWAYS INDIA LIMITED

Registered & Corporate Office : Plot No. 53-A/8, Rama Road Industrial Area, New Delhi-110015

☎ +011-47192065 / 47192066 / 47192067

✉ corporate@roadwaysindia.com 🌐 www.roadwaysindia.com

CIN : L63090DL1987PLC319212

February 03rd, 2021

Scrip Code: Roadways

Metropolitan Stock Exchange of India Limited

Vibgyor Tower, 04th Floor,

Plot No C62, G Block,

Bandra Kurla Complex, Bandra (E),

Mumbai 400098

Scrip Code No.: 28160

The Calcutta Stock Exchange

7, Lyons Range

Kolkata-700001

Sub: Newspaper Cutting- Notice of Next Board Meeting

Dear Sir/ Madam,

We are forwarding herewith copies of newspaper cuttings of above notice as published in the following newspapers:

Name	Date of Publishing
Financial Express (English)	03-02-2021
Jansatta (Hindi)	03-02-2021

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Roadways India Limited




Himani Gusain

Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: a/a

HRB FLORICULTURE LIMITED
CIN: L01300RJ1995PLC009541
Registered Office: A-28, Ram Nagar, Shastri Nagar, Jaipur-302016 Ph. 0141-2303098, 2303097 (Telefax) E-mail: hrfltd@vsnl.com, Website: www.hrb.co.in

Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, 12th February, 2021 at 03:00 P.M. at the registered office of the Company inter-alia to consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended on 31st December, 2020. The said notice may be accessed on the Company's website at www.hrb.co.in and also on the website of BSE Limited at www.bseindia.com.

Place: Jaipur For HRB Floriculture Limited
Date: 02-02-2021 Krishan Kumar Pareek (M.D.)
DIN: 00228220

PASUPATI FINCAP LTD
CIN: L65910HR1996PLC033099
Regd. Office: Village Kapriwas (Dharuhera), Distt. Rewari, Haryana
Head Office: 127-128, Tribhuvan Complex, Ishwar Nagar, New Delhi-110 065

NOTICE
Notice is hereby given that the Board Meeting and Audit Committee Meeting of the Company will be held on Saturday, 13th February, 2021 at 127-128, Tribhuvan Complex, Ishwar Nagar, New Delhi-110065 inter-alia, to consider the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended 31-12-2020.

For PASUPATI FINCAP LIMITED,
Sd/-
Date: 01-02-2021 VIDIT JAIN
DIRECTOR

HINDUSTAN ADHESIVES LIMITED
Registered Office: B-2/8 Safdarjung Enclave New Delhi-110029
CIN: L74899DL1986PLC031191

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, 13th February, 2021 at 2:00 P.M. inter-alia, to consider and approve the unaudited financial results of the Company for quarter ended on 31st December, 2020.

The information contained in this notice is also available on the Company's website at www.bagla-group.com and the website of the Stock Exchange BSE Limited - www.bseindia.com.

For Hindustan Adhesives Limited
Sd/-
Date: 02.02.2021 M.S. Bagla
Place: New Delhi Managing Director
DIN-01422646

AKS CREDITS LIMITED
Regd. Office: 6081, IInd Floor, Room No. 201, Gali Batashan, Khari Baoli, Delhi-110006
CIN: L65921DL1991PLC043544

NOTICE
Pursuant to the provisions of the Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation And Disclosure Requirement) Regulation, 2015, this is to inform you that the meeting of the Board of Directors of M/s AKS Credits Limited ("the Company") has been scheduled to be held on Friday the 12th day of February, 2021 at 3:00 P.M. at 6081, IInd Floor, Room No. 201, Gali Batashan, Khari Baoli, New Delhi-110006, to consider, approve and take on record, inter-alia the un-audited quarterly financial results of the company for the quarter ended 31st December, 2020 and the other relevant matters with the Board's approval.

For AKS Credits Limited
Sd/-
Place: New Delhi Vishesh Khemka
Date: 02.02.2021 Director

VINAYAK POLYCON International Ltd.
CIN No.: L25209RJ2009PLC030620
Regd. Office: 312, Navjeevan Complex, 29, Station Road, Jaipur-302006 (Raj), India.
Tel. No. +91-141-2377007

NOTICE
Pursuant to Regulation 47(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of Board of Directors of the Company will be held on Thursday, 11th day of February, 2021 at 10:00 A.M. at its Registered Office 312, Navjeevan Complex, 29, Station Road, Jaipur, inter alia, to consider and take on record the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter ended on 31st December, 2020.

This information is also available on the website of the company at www.vinayakpolycon.com and also on the website of BSE Ltd. where the shares of the company are listed at www.bseindia.com.

By Order of the Board,
For Vinayak Polycon International Limited,
Sd/- Rashmi Agarwal
Company Secretary & Compliance Officer
Date: 02.02.2021
Place: Jaipur Membership No.: 38114

NUTECH GLOBAL LTD.
CIN No.: L17144RJ1984PLC030323
REGD. OFFICE: E-149, RIICO INDUSTRIAL AREA, BHILWARA-311001, (RAJASTHAN)
TEL NO.- 091 1482 260508
E-MAIL ID: info@nutechglobal.com
WEBSITE: www.nutechglobal.com

NOTICE
Pursuant to Regulation 29 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable provisions, Notice is hereby given that a meeting of Board of Directors of the Company will be held on Friday, 12th February, 2021 at 4:00 P.M. at E-149, RIICO Industrial Area, Bhilwara-311001 (Rajasthan). Inter-alia to consider and approve the unaudited Financial Results of the Company for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2020.

Investors may visit the website of the company (www.nutechglobal.com) and Stock Exchange (www.bseindia.com) for details of Board Meeting.

By order of the Board
For Nutech Global Limited
Sd/-
Place: Bhilwara (Shubhang Jambhavi)
Date: 03.02.2021 Company Secretary

GENOMIC VALLEY BIOTECH LIMITED
Regd. Off: 4 K.M. Stone, Beri Chhara Road, Village- Kherka Musalman, P.O. Tandheri, Tehsil- Bahadurgarh, District-Jaipur, Haryana-124507
CIN: L01122HR1994PLC033029;
Tele: +91-9811341542
Email: genomicvalley@gmail.com;
Visit: http://www.genomicvalley.com

NOTICE
Notice is hereby given pursuant to the provisions of Regulation 29 and 47(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of Board of Directors of GENOMIC VALLEY BIOTECH LIMITED ("Company"), will be held on Thursday, 11th February, 2021 at 11:45 A.M. inter alia, to consider and approve the Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended on December 31, 2020.

Information in this regard is also available on the website of the Company i.e. www.genomicvalley.com and on the website of stock exchange i.e. www.bseindia.com.

For Genomic Valley Biotech Limited
Sd/-
Place: New Delhi Yogesh Agrawal
Date: 02.02.2021 Managing Director

VLS FINANCE LTD.
Regd. Off.: 2nd Floor, 13, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi-110065
CIN: L65910DL1986PLC023129
Ph. No. 011-46556666, Fax: 011-46556699
Email: vls@vlsfinance.com, website: www.vlsfinance.com

NOTICE
Notice is hereby given in terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 12th February, 2021, inter-alia to consider the Unaudited Financial Results for the quarter ended on 31st December, 2020.

This notice is also available on the concerned stock exchange's website www.bseindia.com www.nseindia.com, www.cse-india.com and Company's website www.vlsfinance.com.

The members of the Company are again requested to update email address, PAN and bank details with concerned depository participant for shares held in electronic form and with the Company for shares held in physical form to facilitate communication from the Company.

for VLS Finance Ltd.
Sd/-
Place: New Delhi H. Consul
Date: 01.02.2021 Company Secretary
M.No. - A11183

Regd. Office: Hazi Rattan Link Road, Post Box No. 71, Bathinda-151001 Ph.: 0164-2240163, 2240443, 2211628, Fax: 0164-5003658 Website: www.bcl.ind.in, Email: info@bcl.ind.in
CIN: L24231PB1976PLC003624

COMPANY NOTICE
Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a Meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, the 09th February, 2021, inter-alia to consider the Unaudited Financial Results of the Company for quarter/nine months ended 31st December, 2020. The said Notice is also available on Company's Website www.bclind.in and BSE website www.bseindia.com

For BCL Industries Limited
Sd/-
Sat Narain Goyal (DIN: 00050643)
Place: Bathinda, Date: 02.02.2021

SAMRAT FORGINGS LIMITED
CIN: U28910CH1981PLC004522
Regd. Office: #406, First Floor, Sector 15-A, Chandigarh-160015
Ph: 0172-2774555, 9257240444, E-mail: info@samratforgings.com
Website: www.samratforgings.com

NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 10th February, 2021, inter-alia to consider and approve the Un-audited Standalone Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended on December 31, 2020.

The Notice is also available of the website of the Company i.e. www.samratforgings.com and website of the Stock Exchange i.e. www.bseindia.com.

For Samrat Forgings Ltd.
Sd/-
Date: 02.02.2021 (Sandeep Kumar)
Place: Chandigarh Company Secretary

FEDERAL BANK
46 North Avenue, Punjabi Bagh West, New Delhi - 110026, Tel: 011- 25229514, 25229515, Email : ndlp@federalbank.co.in

NOTICE REGARDING LOCKER OPERATION
The Federal Bank hereby gives notice that certain irregularities have been observed in the maintenance of locker(s) hired by persons whose details are furnished below. Notice(s) sent to the respective locker hiree(s) has/have been returned unserved. The locker hiree(s) other interested parties are hereby informed that in case they fail to regularize the locker arrangement by visiting the Branch within 7 days from the date of this notice, Bank will be constrained to force open the locker(s) and take necessary further actions, as the Bank may deem fit, at the cost and expenses of the locker hiree(s).

Branch	Locker Number	Name & Address of Hiree(s)
New Delhi/Punjabi Bagh	MSJA061	Ravinder Kumar-9/52 Block 9, Double Story Moti Nagar, Delhi, 110015.

Date: 03.02.2021
Place: New Delhi

For the Federal Bank Ltd.,
Senior Manager, Branch Punjabi Bagh

MOHINDRA FASTENERS LIMITED
CIN: L74899DL1995PLC064215
Regd. Office: 304 Gupta Arcade, Inder Enclave, Delhi - Rohtak Road, New Delhi-110087
Website: www.mohindra.asia Email id: cs@mohindra.asia Phone: +91-11- 4620040, 46200401
Fax: +91-11-46200444

PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting (Serial No. 2021/BM/01) of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 10th February, 2021 at 04:30 PM at Friends Club, at 17-A, Block-D, Friends Colony East, W New Delhi-110065, inter alia, to consider and approve the unaudited financial results of the Company for the quarter and nine months ended 31st December, 2020 and other business(s).

Further, pursuant to the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 the trading window for dealing in securities of the Company is already closed from 1st January, 2021 till the expiry of 48 hours after the declaration of Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2020 as already intimated to the stock exchange vide our letter dated 31.12.2020.

The notice may also be accessed on the Company's website at www.mohindra.asia and also on the Stock Exchange website at www.mseil.in.

Dated: 02nd. February, 2021
Place: New Delhi

By order of the Board
For Mohindra Fasteners Limited
Sd/-
(Nidhi Pathak)
(Company Secretary & Compliance Officer)

INTEC CAPITAL LIMITED
CIN: L74899DL1994PLC057410
Regd. Off.: 708, Manjusha Building, 57 Nehru Place, New Delhi - 110 019
T.: +91-11-46522200/300; F.: +91-11-46522233
Website: www.intecapital.com

NOTICE
Pursuant to the Regulation 29 read with regulation 47 and other applicable Regulation of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that, a 7th meeting for the F.Y. 2020-21 of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 12th day of February, 2021 at 02:00 P.M. (IST) at 708, Manjusha Building, Nehru Place, New Delhi-110019 via video conferencing inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the quarter ended as on 31st December, 2020 and to take on record limited review report thereon.

The intimation contained in this notice is also available on the Company website viz. www.intecapital.com and on the website of BSE Limited viz. www.bseindia.com.

For Intec Capital Limited
Sd/-
Vandana Das
(Company Secretary & Compliance Officer)

Date: 2nd February 2021
Place: New Delhi

FRICK INDIA LIMITED
Regd. Office: 21.5 Km, Main Mathura Road, Faridabad - 121003

CIN - L74899HR1962PLC002618, E-mail- cs@frickmail.com,
Ph. 0129-2275691-94, 2270546-47 : Fax: 0129-2275695 Web: www.frickweb.com

NOTICE
Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015; that Meeting of the Audit Committee and the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, 11th day of February, 2021 at 02:30 P.M., and 04:00 P.M., respectively, through Video Conferencing; inter-alia to consider, approve and take on record the Un-Audited (Reviewed) Financial Results of the Company for the Third Quarter and Nine Months ended on December 31, 2020 as well as to dispose of other item(s) as listed on the Agenda fixed for the respective Meeting(s).

Trading window for dealing in the shares of the Company shall remain closed from Friday, January 01, 2021 to Saturday, February 13, 2021 (both days inclusive). The said information is also available on our website at www.frickweb.com and on the website of Metropolitan Stock Exchange of India Limited at www.mseil.in.

For and on behalf of Board of Directors
FRICK INDIA LIMITED
Sd/-
Amit Singh
Company Secretary
Membership No. A46813

Place: Faridabad
Date: February 02, 2021

FORM B
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF GADHINGLAJ AGRO ALCOCHEM LIMITED

S.No.	PARTICULARS	DETAILS
1.	Name of corporate debtor	Gadhinglaj Agro Alcochem Limited
2.	Date of incorporation of corporate debtor	07.08.2007
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated/registered	Companies Act, 1956 (ROC-Pune)
4.	Corporate Identity No. of corporate debtor	U24200PN2007PLC130542
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Registered Office: Survey No. 990(1) Beradwadi at Post Bhadgaon, Taluka Gadhinglaj, Gadhinglaj, Maharashtra 416502 Principal Office: 17A/1, WEA, Ajmal Khan Road, Karol Bagh, Delhi 110005
6.	Date of closure of Insolvency Resolution Process	27th January, 2021
7.	Liquidation commencement date of corporate debtor	27th January, 2021
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as liquidator	Gulshan Kumar Gupta IBBI/PA-001/PA-P00021/2016-17/10046
9.	Address and e-mail of the liquidator, as registered with the Board	202, Kumar House, Central Market, Prashant Vihar, Delhi 110085, lgulshan@gmail.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the liquidator	202, Kumar House, Central Market, Prashant Vihar, Delhi 110085, lrp.gaul@gmail.com
11.	Last date for submission of claims	25th February, 2021

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, Mumbai Bench has ordered the commencement of liquidation of the Gadhinglaj Agro Alcochem Limited on 27th January, 2021 (order uploaded on NCLT website on 01.02.2021).

The stakeholders of Gadhinglaj Agro Alcochem Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 25th February, 2021, to the liquidator at the address mentioned against item No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with the proof in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proof of claims shall attract penalties.

Date: 01.02.2021
Place: Delhi Gulshan Kumar Gupta
Liquidator

U.P. ASBESTOS LIMITED
Regd. Office :
P.O.-Mohanlalgarh, Lucknow-226301 (U.P.)
Notice is hereby given that Pursuant to Regulation 29(1)(A) read with Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations 2015, meeting of the Board of Directors of the Company will be held on 12th February, 2021 at 01:30 P.M. at Mahmoodabad Estate Building, 15, Hazratganj, Lucknow-226001, inter-alia, to consider and take on record the Unaudited Financial Results for the quarter ended 31st December, 2020 and other items.

For U.P. Asbestos Limited
Sd/-
Place: Lucknow (Manish Kr. Singh)
Date : 02.02.2021 Company Secretary

GOODLUCK INDIA LTD.
Regd. Off: 509, Arunachal Building, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi - 110001
Website: www.goodluckindia.com
E-mail: goodluck@goodluckindia.com
CIN : L74899DL1986PLC050910

NOTICE
Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of SEBI (Listing obligations and disclosure requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, 13th February, 2021 at Corp. Office of the Company, inter-alia, to consider and approve the Unaudited standalone and consolidated Financial Results of the Company for the Quarter/Nine month ended on 31st December, 2020.

The detail notice is available on the website of the Company, i.e. www.goodluckindia.com and the website of stock exchanges, i.e., www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For Goodluck India Limited
Sd/-
(R. C. Garg)
Place: Ghaziabad Director
Date: 02.02.2021 DIN: 00298129

GOODLUCK INDIA LTD.
Regd. Off: 509, Arunachal Building, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi - 110001
Website: www.goodluckindia.com
E-mail: goodluck@goodluckindia.com
CIN : L74899DL1986PLC050910

NOTICE
Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of SEBI (Listing obligations and disclosure requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, 13th February, 2021 at Corp. Office of the Company, inter-alia, to consider and approve the Unaudited standalone and consolidated Financial Results of the Company for the Quarter/Nine month ended on 31st December, 2020.

The detail notice is available on the website of the Company, i.e. www.goodluckindia.com and the website of stock exchanges, i.e., www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For Goodluck India Limited
Sd/-
(R. C. Garg)
Place: Ghaziabad Director
Date: 02.02.2021 DIN: 00298129

GOODLUCK INDIA LTD.
Regd. Off: 509, Arunachal Building, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi - 110001
Website: www.goodluckindia.com
E-mail: goodluck@goodluckindia.com
CIN : L74899DL1986PLC050910

NOTICE
Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of SEBI (Listing obligations and disclosure requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, 13th February, 2021 at Corp. Office of the Company, inter-alia, to consider and approve the Unaudited standalone and consolidated Financial Results of the Company for the Quarter/Nine month ended on 31st December, 2020.

The detail notice is available on the website of the Company, i.e. www.goodluckindia.com and the website of stock exchanges, i.e., www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For Goodluck India Limited
Sd/-
(R. C. Garg)
Place: Ghaziabad Director
Date: 02.02.2021 DIN: 00298129

S.R. Industries Limited
CIN: L29246PB1986PLC009531
Regd. Off: E-217, Industrial Area, Phase 8B, Mohali, Punjab - 160071 Website: www.srfcootwears.com
Email: info@srfcootwears.com Tel: +91 172 4602886

NOTICE
Notice is hereby given in terms of Regulation 29 read with 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, February 11, 2021, inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended December 31, 2020.

This information is also available on the Company's website at www.srfcootwears.com and on the website of the stock exchange, where securities of the company are listed, viz. BSE Ltd. www.bseindia.com

For S. R. Industries Ltd.
Sd/-
Amit Mahajan
Date: February 02, 2021 Chief Financial Officer
Place: Mohali DIN: 00038593

AJANTA SOYA LIMITED
CIN L15494RJ1992PLC016617
Regd. Office & Works : SP-916, Phase-III, Industrial Area, Bhiwadi-301019, Rajasthan
Tel.: 911-6176727, 911-6128880;
Corp. Office : 12th Floor, Bigjo's Tower, A-8, Netaji Subhash Place, Wazirpur District Centre, Delhi - 110034
Tel: 011-42515151, Fax : 011-42515100
E-mail : cs@ajantasoya.com,
Website: www.ajantasoya.com

NOTICE
Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, 13th February, 2021 to inter-alia consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2020.

The above information is also available on the website of the Company at www.ajantasoya.com and also on the website of stock exchange i.e. www.bseindia.com.

For Ajanta Soya Limited
Sd/-
Place: Delhi Kapil
Date : 02.02.2021 Company Secretary

ROADWAYS INDIA LIMITED
CIN: L63090DL1987PLC0319212
Regd. Office: Plot No. 53-A/8, Rama Road Industrial Area, New Delhi-110015
Email: corporate@roadwaysindia.com,
website: www.roadwaysindia.com
Tel.: 011-47192065, Fax: 011-25815456

NOTICE
Notice is hereby given that the next Meeting of the Board of Directors of the Company has been scheduled to take place on Friday, February 12th, 2021 at 3:30 P.M. to inter alia consider and approve the Unaudited Financial Results for the 3rd Quarter/ Nine months ended December 31, 2020.

This information is also available on the Company's website: www.roadwaysindia.com and on Stock Exchange's website: www.cse-india.com and www.mseil.in

By order of Board of Directors
For Roadways India Limited
Sd/-
Date : February 02, 2021 Himani Gargia
Place : New Delhi Company Secretary & Compliance Officer

ATLANTIC COMMERCIAL COMPANY LIMITED
Regd. Office: Unit No 2053, 2nd Floor, Plaza-II, Central Square, 20, Manohar Lal Khurana Marg, Bara Hindu Rao, Delhi-110006
CIN: L51909DL1985PLC020372
E-mail id: limitedatlantic@gmail.com
Website: www.atlantic-commercial.com
Ph: 011-41539140

NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, February 12, 2021, inter-alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the third quarter and nine months ended December 31, 2020.

The information contained in this notice may be accessed on the Company's website at www.atlantic-commercial.com and also on the website of the stock exchange i.e. www.mseil.in

For Atlantic Commercial Company Limited
Sd/-
Narendra Kishore Gaur
Place: Delhi Chairman
Date: 02.02.2021 DIN - 00168265

VIKALP SECURITIES LIMITED
Regd. Office: 25/38, KARACHI KHANA, KANPUR, UTTAR PRADESH -208001
CIN:L65993UP1986PLC007727 , Contact No: 0512-2372865
Email Id : vikalpsecuritieslimited@gmail.com
Website : www.vikalpsecurities.com

NOTICE
NOTICE is hereby given that pursuant to the Regulation 47(1)(a) read with Regulation 33 and Regulation 29 of SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015, a meeting of Board of Directors of Vikalp Securities Limited will be held on Thursday, 11th February, 2021 at 02:00 P.M. at the Registered Office of the Company at 25/38, Karachi Khana, Kanpur, Uttar Pradesh- 208001, inter alia, to consider and approve the unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended on 31st December, 2020. The said information is also available on the website of the Company www.vikalpsecurities.com and on the website of Bombay Stock Exchange Limited www.bseindia.com.

For Vikalp Securities Limited
Sd/-
Arun Kejriwal
Managing Director
DIN : 00687890

Date: 02nd February, 2021
Place: Kanpur

"IMPORTANT"
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

AMAR VANIYA LIMITED
CIN: L74900DL1985PLC020118
Regd. Office: 105, Southex Plaza - II, Leela Ram Market, South Extn - II, New Delhi - 110 049

NOTICE
Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 10th February 2021, inter alia to consider and approve the Un-Audited Financial Results (provisional) of the Company for the quarter ended 31st December, 2020.

For Amar Vaniya Limited
Sd/-
Place : New Delhi
Date: 02.02.2021 Punam Kumari Sharma
Company Secretary

ELLORA TRADERS LIMITED
CIN: L27101UP1985PLC007436
Regd. Office: 16/95, The Mall, Kanpur - 208 001

NOTICE
Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 10th February 2021, inter alia to consider and approve the Un-audited Financial Results (provisional) of the Company for the quarter ended 31st December, 2020.

For Ellora Traders Limited
Sd/-
Place: Kanpur Susma Shaw
Date: 02.02.2021 Company Secretary

STARLIT POWER SYSTEMS LIMITED
Regd. Office: A-1/51, LGF SAFDARJUNG ENCLAVE, NEW DELHI- 110029
CIN: L37200DL2008PLC174911
E-mail: info@starlitgroup.net
Website: <http://www.starlitpower.com>
Ph.: +91 11 26102570, 46027970, 46037870

Pursuant to Regulation 29(1)(a) read with Regulation 47(1)(a) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the company is Schedule to be held on Thursday, the 11th day of February, 2021 at A-1/20, LGF Safdarjung Enclave, New Delhi - 110029, inter-alia to consider and approve the unaudited Financial Results for the quarter ended 31st December, 2020.

The said notice is also available at company's website at <http://www.starlitpower.com> and may also be accessed on the Stock Exchange website at <http://www.bseindia.com>

Pursuant to the "Starlit" code to regulate, monitor, and report trading by Directors, Promoters, Designated Employees and Connected Person of the Company and the Material Subsidiaries of the company" the Trading Window Close Period has commenced from January 1, 2021 and will end 48 hours after the date of declaration of the aforesaid results.

For Starlit Power Systems Limited
Sd/-
Lavan Raheja
Company Secretary
M. No. - 55438

New Delhi
02.02.2021

SHARMA EAST INDIA HOSPITALS & MEDICAL RESEARCH LIMITED
Regd office: Jaipur Hospital, Near SMS Stadium, Lal Kothi, Tonk Road, Jaipur.
Phone: 0141-2742557, 2742268 • CIN: L05110RJ1989PLC00

दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 फरवरी।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने दसवीं और बारहवीं कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षा के कार्यक्रम की मंगलवार को घोषणा कर दी। परीक्षाएं चार मई से शुरू होगी। कार्यक्रम के मुताबिक दसवीं कक्षा के लिए परीक्षा सात जून को खत्म हो जाएगी, जबकि बारहवीं की परीक्षा का सम्पान 10 जून को होगा। बोर्ड ने तीन महीने पहले परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा की है जिससे विद्यार्थियों को तैयारी का पर्याप्त समय मिल जाएगा।

आम तौर पर प्रायोगिक परीक्षाएं जनवरी में होती हैं और लिखित परीक्षाएं फरवरी में शुरू होती हैं और यह मार्च में खत्म हो जाती

पार्थी की जमानत अर्जी पर सुनवाई स्थगित

मुंबई, 2 फरवरी (भाषा)।

बंबई हाई कोर्ट ने टेलीविजन रेटिंग पाइंट (टीआरपी) के कथित फर्जी घोटाले में आरोपी ब्रॉडकास्ट

ऑडियंस रिसर्च कार्डसिल (बार्क) के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी पार्थी दासगुप्ता की अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई नौ फरवरी के लिए स्थगित कर दी।

BEFORE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL - III, DELHI 4TH FLOOR, DEBTS TOWER BUILDING, PARLIAMENT STREET, NEW DELHI-110001
(C-19) Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules) 1993 & 15 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules) 1993 in the matter of:-
CA NO.: 10382/2019
Applicant Vs. MAHAPAL GOSWAMI & ANR. - Defendant
To, CA No. 10382/2019
The above named applicant has initiated a case against the respondent herein, as stated above, in the jurisdiction of the Tribunal that it is not to serve you in ordinary way. In response, this notice is issued by advertisement directing you to make appearance in this Tribunal on 08.02.2021 at 10.30 AM.
Take notice that in case of your failure to appear on the above mentioned day before this Tribunal, the case will be heard and decided in your absence.
Due to ongoing Pandemic situation, all the matters will be heard through Video Conferencing and all their purpose (All the Advocate Litigants shall open their Court Video application software) in Meeting ID and Password for the hearing of the hearing date (Date to be taken by Registrar/Recovery Officer-Hand Recovery Officer-II shall be available one day prior to the next date of the Court Video i.e. group under the Public Notice Head. (a) In any emergency case that the Applicant/Respondent can contact the courtroom official at Mr. 23748465.
Given under my hand and seal of this Tribunal on this 18th day of January, 2021.
By Order of this Tribunal
Assistant Registrar, DRT-III, New Delhi

रोडवेज इंडिया लिमिटेड
CIN: L63090DL1987PLC319212
पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं. 43-ए/8, रमा राव इण्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110015
ई-मेल आईडी : corporate@roadwaysindia.com
वेबसाइट : www.roadwaysindia.com
फोन नं. : 011-47192065, 011-25815456
मुख्या
एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की अगली बैठक शुक्रवार, 12 फरवरी, 2021 को अप. 3:30 बजे आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तीसरी तिमाही / नी माह के लिए अलेक्सापीसि वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन किया जाएगा।
यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.roadwaysindia.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.cse-india.com एवं www.mseil.in पर भी उपलब्ध है।
बोर्ड के सदस्यगण
कृते रोडवेज इंडिया लिमिटेड
दिनांक : 02 फरवरी, 2021
स्थान : नई दिल्ली
हस्ता/-
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

COURT NOTICE
In The Court Of Sh. Satish Kumar Sharma
JMJC Ludhiana
CNR NO: PBLD03-080561-2018
Next date: 01-03-2021
Mis Uk Crop Sciences Private Limited Vs. Vivek Rai
Publication Issued To: Vivek Rai -> Prop Of Raj Brothers Gomadin Lalgaon Dist. Azamgarh Uttar Pradesh
whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the above named accused (accused persons) can't be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under section 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 01-03-2021 at 10.00 am. or within 30 days from the date of publication. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above, as above said case will be heard and determined as per law, in your absence, given under my hand and the seal of this court
complete up 139 of NJ ACT
for details login to: https://highcourtdelhi.gov.in/27anddistrict_notice&district=Ludhiana
JMJC Ludhiana

सुरज इण्डस्ट्रीज लि.
CIN: L26943HP1992PLC016791
ई-मेल : secretarial@surajindustries.org
वेबसाइट : www.surajindustries.org
बन्धी, कक्षा: प्लॉट नं. 2, केन 3, सारसपुर रोड, लिला, कानपुर, हिमाचल प्रदेश-173212
कॉर्पोरेट कार्यालय: एक-32/3, प्रथम तल, ओकटा, इंडस्ट्रियल एरिया, फ्ले-2, नई दिल्ली-110020
संपर्क सूत्र: 01970-256414

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियम 29 के साथ पठित विनियम 33 और 47 के अनुपालन में **मैसर्स सुरज इण्डस्ट्रीज लि.** के निदेशक मण्डल की बैठक गुरुवार, 04 फरवरी, 2021 को रोडवेज 30 बजे अप. 3:30, प्रथम तल, ओकटा औद्योगिक क्षेत्र, फ्ले-2, नई दिल्ली-110020 में आयोजित की जाएगी जिसमें 31 दिसम्बर, 2020 को कम्पनी के समाप्त तिमाही एवं तीमाही के अनकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी कम्पनी की वेबसाइट www.surajindustries.org अथवा स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट www.bseindia.com पर जाएं।
कृते सुरज इण्डस्ट्रीज लि.
हस्ता/-
स्थान: नई दिल्ली
निधि: 29.01.2021
(कम्पनी सचिव)

Orchid Pharma Ltd.
(Formerly Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Limited)
Shropshire, UK
CIN NO.: L24222TN1992PLC022994
Regd. Office: 'Orchid Towers', No. 313, Valluvar kottam High Road, Nungambakkam, Chennai - 600034, India.
Tel.: (91) -44- 28211000; Fax: (91)-44- 28211002
E-mail: corporate@orchidpharma.com
Website: www.orchidpharma.com

NOTICE
NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 29 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, that a meeting of the Board of Directors of Orchid Pharma Limited is scheduled to be held on **Tuesday, February 09, 2021**, inter-alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Standalone and Consolidated financial results of the Company for the quarter ended December 31, 2020.
A copy of the said notice shall also be available on Company's website at www.orchidpharma.com as well as on Stock Exchange websites - www.nseindia.com and www.bseindia.com

By order of the Board
For Orchid Pharma Limited
Sd/-
Nikita K
Date: February 02, 2021
Company Secretary
DHANUKA GROUP COMPANY

JAUSS POLYMERS LIMITED
CIN: L74899HR1987PLC066055
Registered Office: Plot No. - 51, Road Ka Meo Industrial Area, Sohna, Dist. Gurugram - 122103 (Haryana)
Website: www.jausspolymers.com
Email: response@jausspolymers.com
Tele. No.: 0120-7195236-239.

NOTICE
Pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please be informed that Meeting of Board of Director of the Company will be held at 8:01-8:02, 8th Floor, Tower-2, Asotesh Business Crestera, Plot No. 22, Sector 135, Noida-201301 on Thursday, the 11th day of February, 2021 inter-alia, to consider and approve the following:
1. To consider and approve the standalone and consolidated Un-audited Financial Results for the quarter and nine months ended on 31st December, 2020.
2. To consider and take note of Limited review report of Statutory Auditor on standalone and consolidated Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended on 31st December, 2020.
3. To consider and approve any other agenda items as place on Board.
Pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and as per the BSE circular LIST/COMP/O1/2019-20 dated April 2, 2019, the Trading Window for the securities of the Company has already been closed from January 1, 2021 till 48 hour after the declaration of un-audited Financial Results.
For Jauss Polymers Limited
Sd/-
Place: Noida Mukesh Kumar
Date: 02.02.2021 Company Secretary

यूजीसी नेट का आयोजन मई में होगा : निशंक

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 फरवरी।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीई) मई में कनिष्ठ प्राध्यापक छात्रवृत्ति और सहायक प्राध्यापक के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

(यूजीसी) की राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा (नेट) आयोजित करेगी। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म दो फरवरी 2021 से उपलब्ध

GOLKONDA ALUMINIUM EXTRUSIONS LIMITED
(Formerly known as Alumeco India Extrusion Limited)
Regd. Office: A-2/78-B, Keshav Puram, New Delhi - 110035, India
NOTICE
Pursuant to Regulation 29 and 47(1)(a) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 12th February, 2021 at 05:00 P.M. to consider and take on record, inter alia, the standalone unaudited financial results for the quarter and nine months ended 31st December, 2020.
The Intimation is also available on the website of the company (www.gael.co.in) and on the website of the Stock Exchange (www.bseindia.com)
for & on behalf of Golkonda Aluminium Extrusions Limited
Sd/-
Anand Bharti
Whole-time Director
DIN: 02469989
Place: New Delhi
Date: 02.02.2021

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय
महेंद्रगढ़ (हरियाणा) - 123031
दिनांक: 02.02.2021
विभिन्न शिक्षणेत्र पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र और अन्य संबंधित विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.cuh.ac.in पर उपलब्ध हैं। इस संबंध में अन्य जानकारी केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध की जाएगी। आवेदन पत्र विश्वविद्यालय में दिनांक 03-03-2021 को सायं 05:00 बजे तक पहुंचाने जाने कुलसचिव

एयू स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कर्माश्रित बैंक)
रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)
परिशिष्ट-IV-A
नियम 8(6) के परन्तुक को देखें
अचल सम्पत्तियों के विक्रय के लिए विक्रय सूचना
वित्तीय आचार्यों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के शर्त व समर्पित नियम 8(6) के अनुरण अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी विक्रय सूचना
आमजन को साधारणतया तथा ऋणी, सहऋणी व जमानतदार को विशेष रूप से एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित बन्धक अचल सम्पत्तियों का भीतिक कब्जा एयू स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कर्माश्रित बैंक) के नाम से ज्ञात जो कि आगे एयू एस एक ए की सन्धिभित किया जावेगा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया था को "जैसे है जहाँ है" एवं जो भी है जैसा भी है के आधार पर ई-नीलामी द्वारा निम्न नीलामा में दर्शित बकाया राशि एवं भविष्य का व्याज, लागत व शुल्क की वसूली हेतु विक्रय किये जा का निर्णय लिया गया है। यह सूचित किया जाता है कि ई-नीलामी वेबसाइट <https://sarfaesi.auctiontiger.net> के माध्यम से आयोजित की जावेगी।
अारक्षित मूल्य ईएमडी राशि एवं निविदा बुद्धि राशि (राशि रु. में)
ई-नीलामी की तिथि व समय एवं ईएमडी जमा की अंतिम राशि बालि और दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण का स्थान, निरीक्षण तिथि
यह सूचना-पत्र प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 8(6) के अन्तर्गत ऋणी / बंधककर्ता के लिए सूचित 30 दिवसीय विक्रय सूचना-पत्र भी है।

ई-नीलामी बिक्री के नियम और शर्तें:-
1. बंधक परिसंपत्ति की ई-नीलामी बिक्री AUSFB सूचित लेनदार द्वारा" जैसा है, जहाँ है, "जैसा है वैसा, "जो कुछ भी है और "नो रिफ़र्स के आधार पर की जायेगी उससंपत्ति पर कोई ज्ञात प्रभार नहीं है। 2. ऑनलाइन ई-नीलामी की बिक्री में भाग लेने के लिए, बोली दस्तावेज, पेन कार्ड की प्रतियाँ, कंपनी के फोटो आइडी, कम्पनी के मामले में बॉर्ड रिजोल्यूशन, पते का प्रमाण पत्र ईएमडी के साथ, जो आरटीसीएस/आईएफटीई के माध्यम से देय है एयू स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड के MSME AUCTION POOL ACCOUNT के नाम, चालू खाता संख्या 1921201121711599 AU SMALL FINANCE BANK Limited पांचवीं एवं छठी मिनल, सभी बिग जंक्शन एस्टेटीसी खसरा नं 64 से 67, ग्राम सुखसूनुय, न्यू आसियम मार्केट जयपुर 302020, IFSC कोड: AUBL0002011 में जमा करना आवश्यक है, एक बार ऑनलाइन बोली समर्पित करने के बाद, उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। आगे बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किसी भी ईएमडी को निम्नलिखित ईमेल आईडी यानी rakesh.jain1@aubank.in पर रद्द किए गए चेक की कॉपी के साथ आरटीसीएस / एनईएफटी की यूटीआर / रेकर्स नंबर भेजने की आवश्यकता होगी। 3. सभी इच्छुक प्रतिभागियों / बोलीकर्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि ई-नीलामी की बिक्री की कार्यवाही में भाग लेने, जानकारी और शर्तों के लिए वेबसाइट <https://sarfaesi.auctiontiger.net> & <https://www.aubank.in/bank-auction> अवश्य देखें। और अधिक जानकारी के लिए श्री राकेश जैन से संपर्क करें: 9116181827 और ई-मेल rakesh.jain1@aubank.in
स्थान: दिल्ली दिनांक: 02 फरवरी 2021

अचल सम्पत्ति का विवरण एवं सम्पत्ति स्वामी का नाम
सर्फेसी एक्ट 2002 के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 8(6) के अन्तर्गत 15 दिन का वैधानिक बिक्री नोटिस माना जायें।
1. शाखा : अजयपुर कैंड, देहरादून
सम्पत्ति नं. 1. बंधक फेनडी भूमि एवं मान स्थित खाता नं 811, खसरा नं 1347/22 नया नं 429 क माप क्षेत्रफल 380 वर्ग मीटर, रजिस्टर्ड विक्रेय विलेख नं 1153, बुक नं 1, पेज नं 251-266, सम्पत्ति स्वामी श्री रविन्द्र सिंह बिष्ट, स्थित लांघा रोड, मौजा छरवा, लहसील- विकास नगर, जिला- देहरादून। सीमाएं:-उत्तर: खाली प्लॉट के बाद अन्य की फेनडी माप 24.45 फीट, दक्षिण: मिमरल वाटर की फेनडी, पूर्व: देशराज का मकान, पश्चिम: 19 फीट चौड़ा रास्ता के बाद कम्यूटर पार्क की फेनडी।
सम्पत्ति नं. 2. मैसर्स मोनाल ब्रेवर्स फेनडी के प्लॉट एवं मशीनरी स्थित लांघा रोड, मौजा छरवा, लहसील- विकास नगर, देहरादून।
नियम व शर्तें:
1. बिक्री सूचना नियम (प्रवर्तन) नियम 2002 और निम्नलिखित शर्तों में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगी।
2. नीलामी की सम्पत्तियों को जहाँ है, जैसा है, जो है के आधार पर बिक्री की जायेगी।
3. अनुपस्थिति में निर्दिष्ट सूचित परिसंपत्तियों के विवरण को प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोच्च जानकारी के लिए किया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए ज़ाबानदेही नहीं होगी।
4. बिक्री अवोहस्ताक्षरी द्वारा ई-नीलामी के माध्यम से प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध वेबसाइट www.mstcecommerce.com, पर दिनांक 29.09.2020 को ज्ञात 12.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक
5. विस्तृत नियम व शर्तों की जानकारी के लिये आगे वेब साईट www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, <https://eprocure.gov.in/publish/app> & www.pnbindia.in पर लॉगिन कर सकते हैं या नियम व शर्तों की प्रतिलिपि हमारे कार्यालय से किसी भी कार्यदिन पर प्राप्त कर सकते हैं।
6. इच्छुक बोलीदाता किसी भी जानकारी के लिए श्री विनोद चौहान, नो 9760266106 से सम्पर्क करें।
सर्फेसी एक्ट 2002 के नियम 8(6) के तहत सांविधिक बिक्री सूचना
दिनांक: 02.02.2021 स्थान - देहरादून प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

एल्केमिस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड									
CIN: L74899DL1993PLC055768									
पंजी. कार्यालय: आर-4, यूनिट नं. 103, 1 तल, खड़की एक्स्प्रेसन मैन रोड, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017									
ईमेल: info@alchemist-corp.com फोन: 011-29544474									
31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं नौ महीने का अनेकेक्षित वित्तीय परिणाम									
(ईपीएस डैटा छोड़कर रु. लाखों में)									
विवरण	स्टैंडएल्टोन					समेकित			
	31.12.2020	30.09.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	30.09.2020	31.12.2019	31.12.2020
		(अनेकेक्षित)		(अनेकेक्षित)	(अनेकेक्षित)	(अनेकेक्षित)	(अनेकेक्षित)	(अनेकेक्षित)	(अनेकेक्षित)
प्रचालनों से कुल आय	12.79	6.58	17.61	30.45	29.49	12.79	6.58	17.61	30.45
कर तथा एसोसिएट्स एवं संयुक्त उपक्रमों में (हानि)/लाभ के शेयर से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	2.99	(1.37)	7.50	6.46	8.41	2.88	(1.48)	6.81	6.23
कर तथा विशिष्ट मर्तों के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	2.69	(1.37)	7.50	5.27	8.41	2.58	(1.48)	6.81	5.04
अवधि के लिए कुल व्यापक (हानि)/ आय	2.69	(1.37)	7.50	5.27	8.41	2.58	(1.48)	6.81	5.04
प्रदत्त इक्विटी पूँजी (सम मूल्य रु. 10/- प्रति)	491.43	491.43	491.43	491.43	491.43	491.43	491.43	491.43	491.43
पुनर्मूल्यकन आरक्षित छोड़कर आरक्षित (अंतिम अनेकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार)					(67.22)				(67.04)
आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (वार्षिकीकृत नहीं)									
मूल	0.05	(0.03)	0.15	0.11	0.17	0.05	(0.03)	0.14	0.13
सरल	0.05	(0.03)	0.15	0.11	0.17	0.05	(0.03)	0.14	0.13
टिप्पणी:									
1. उपरोक्त स्टैंडएल्टोन तथा समेकित वित्तीय परिणामों को उसके अंतर्गत जारी संबंधित नियमों तथा लागू होने वाली एरिया तक अन्य माम्यता प्राप्त लेखा सिद्धांतों तथा नीतियों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत यथा निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक ("इंड एसएस") के अनुसार तैयार किया गया है।									
2. उपरोक्त सभी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दायित्व 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं तीमाही के लिए अनेकेक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडएल्टोन एवं समेकित) के विस्तृत प्रारूप का सार है। 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं तीमाही के अनेकेक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडएल्टोन एवं समेकित) का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) तथा कंपनी की वेबसाइट (www.alchemist-corp.com) पर उपलब्ध है।									
बोर्ड के आदेश से एल्केमिस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए हस्ता./- (संकेत लाल प्रबंध निदेशक) DIN: 3322557									
तिथि: 2.2.2021									
स्थान: नई दिल्ली									

होंगे और दो मार्च 2021 तक आवेदन किए जा सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को द्वाबैट कर यूजीसी नेट 2021 को तारीखों का एलान किया।

राइट्स लिमिटेड (भारत सरकार का एक उपक्रम)
सीआईएन नं.: L74899DL1974GOI007227
पंजीकृत कार्यालय: रकोप गीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली - 110092

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 29 के साथ पठनीय विनियम 47 के अनुसार एवं एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राइट्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक दिनांक 10 फरवरी, 2021, सुबह 9 बजे को आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं नौ महीने के अनेकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार किया जाएगा। इस संबंध में कृपया ध्यान दें कि सेबी (प्रोविडिंग ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग विनियम, 2015 ("द कोड") के अनुसार निर्मित कंपनी की आधार संरक्षा के अनुसार एवं संरक्षा में निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए कंपनी ने शेयरों के कारोबार के लिए ट्रेडिंग विंडो शुक्रवार 1 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाही के लिए अनेकेक्षित तिमाही वित्तीय परिणाम की घोषणा की तिथि से 48 घंटों तक पहले ही बंद कर दी गई है। यह सूचना कंपनी की वेबसाइट www.rites.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।
हस्ता./-
कृते राइट्स लिमिटेड
आचार्य श्रीवास्तव
दिनांक : 2 फरवरी, 2021
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

सर शादी लाल एण्टरप्राइजेज लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय:- 43, हस्तावत, 15, बाराखवा रोड नई दिल्ली- 110001
CIN: L51909DL1933PLC009509
Website-www.sirshadial.com | E-mail: udsm_shamli@sirshadial.com

सूचना
एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (एल.ओ.डी.आर.) अधिनियम 2015 के नियम 29 (1)(ए) के अनुसार सूचित किया जाता है कि कम्पनी के संचालन मंडल की बैठक दिनांक 6 फरवरी 2021 को होनी निश्चित हुई है, जिसमें 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त हुये नैमासिक एवं नौ माह के अपरिक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कम्पनी के अधिकारी / संचालको एवं उनके रिश्तेदारों के लिये कम्पनी की प्रतिभूतियों की खरीद फिरोद कम्पनी के वित्तीय परिणामों के प्रकाशित होने के 48 घंटे तक बन्द रहेगी।
हस्ता./-
अजय कुमार जैन
कम्पनी सचिव

कृते सर शादी लाल एण्टरप्राइजेज लिमिटेड
हस्ता./-
अजय कुमार जैन
कम्पनी सचिव
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01.02.2021

यूपी. होटल्स लिमिटेड
सीआईएन : L55101DL1961PLC017307
पंजीकृत कार्यालय : 1101, सूर्य किरण, 19, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 011-23722596-8 फैक्स : 011-23312990
ईमेल : clarkssuryakiran@yahoo.co.in, वेबसाइट : www.hotelclarks.com
सूचना
भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियम 29 एवं 33 के अनुसार एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अन्य बातों के साथ-साथ 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही तथा तीमाही के अनेकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन करने के लिए कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक बुधवार, 10 फरवरी, 2021 को आयोजित की जायेगी। यह सूचना स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट www.hotelclarks.com पर भी उपलब्ध है।
कृते यूपी. होटल्स लिमिटेड
हस्ता./-
प्रकाश चन्द्र पट्टी
(कम्पनी सचिव)
स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 02.02.2021

सवारे ट्रेड एण्टरप्राइजेज लिमिटेड
CIN: L51909DL1990PLC040761
पंजी. कार्यालय: 37 तल, गोपाला टावर, 25, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
टेली: 011-25747696/25751934-36, फैक्स: 011-25751937/38
[www.savaretrade](http://www.savaretrade.com)